

06.06.2018

Scrip Code: 532290/BLBLIMITED
ISIN No.: INE791A01024

To,

The Manager (Listing)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001

Scrip Code: 532290

To,

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051

Scrip Code: BLBLIMITED

Sub: Submission of Newspaper Advertisement of Notice convening the meeting of Equity Shareholders (including Postal Ballot & e-voting)

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement of Notice convening the meeting of Equity Shareholders (including Postal Ballot & e-voting) of BLB Limited published in **Business Standard (English), Haryana Edition and Jansatta (Hindi), Haryana Edition; (i.e. Delhi ,NCR edition)** as instructed by Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench vide their order dated 23.05.2018 w.r.t. Scheme of Arrangement for Amalgamation of BLB Commodities Limited (Transferor Company-1) and BLB Global Business Limited (Transferor Company-2) and Caprise Commodities Limited (Transferor Company-3) and Sri Sharadamba Properties Limited (Transferor Company-4) with the Company, i.e. BLB Limited (Transferee Company).

This is for your kind information and records.

Thanking you,
For **BLB LIMITED**



(ABHA GARG)
COMPANY SECRETARY

M. No : A38787

BLB Limited | CIN : L67120HR1981PLC051078
Corporate Member : NSE

Corporate Office : H.No. 4760-61/23, 3rd Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002 Tel : 011-49325600. Fax : 011-49325637
Registered Office : SCO (Shop Cum Office) No.22, Spring Field Colony, Extension No.1, Near Sector 31-32, Faridabad-121003, Haryana
Website : www.blblimited.com, Email : info@blb@blblimited.com

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH
COMPANY APPLICATION NO. CA(CAA) NO 09/Chd/Hry/2018

IN THE MATTER OF:

SECTIONS 230 AND 232 OF THE COMPANIES ACT, 2013

AND

IN THE MATTER OF:

BLB COMMODITIES LIMITED Having its Registered Office at SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension no. 1, Near Sector 31-32, Faridabad, Haryana - 121003.

AND

Transferor Company-1 (Applicant Company - 1)
BLB GLOBAL BUSINESS LIMITED Having its Registered Office at SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension no. 1, Near Sector 31-32, Faridabad, Haryana - 121003.

AND

Transferor company-2 (Applicant Company - 2)
CAPRISE COMMODITIES LIMITED Having its Registered Office at SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension no. 1, near sector 31-32, Faridabad, Haryana - 121003.

AND

Transferor company-3 (Applicant Company - 3)
SRI SHARADAMBA PROPERTIES LIMITED Having its Registered Office at SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension no. 1, Near Sector 31-32, Faridabad, Haryana - 121003.

AND

Transferor company-4 (Applicant Company - 4)
BLB LIMITED Having its Registered Office at SCO (Shop Cum Office) No. 22, Spring Field Colony, Extension no. 1, Near Sector 31-32, Faridabad, Haryana - 121003.

AND

Transferee Company (Applicant Company - 5)

NOTICE CONVENING THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS (INCLUDING POSTAL BALLOT & E-VOTING) OF BLB LIMITED (TRANSFEREE COMPANY / APPLICANT COMPANY - 5).

Notice is hereby given that by the order of Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench at Chandigarh, Order dated 23rd May, 2018 (the "Order") has directed meeting of Equity shareholders of M/s. BLB Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Arrangement for Amalgamation of BLB Commodities Limited (Transferor Company-1), BLB Global Business Limited (Transferor Company-2), Caprise Commodities Limited (Transferor Company-3), Sri Sharadamba Properties Limited (Transferor Company-4) with BLB Limited (Transferee Company) and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under section 230-232 of the Companies Act, 2013.

In pursuance of the said order and as direction therein, further notice is hereby given that aforesaid meeting of the Equity Shareholders of Transferee Company will be held as under, at which Equity Shareholders of the Transferee Company are requested to attend.

Persons entitled to attend and vote at the meetings may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the Corporate office of the Applicant Companies as mentioned above, not later than Forty eight (48) hours before the scheduled time of the commencement of the aforesaid meeting. Forms of proxy can be obtained from the Corporate office of the Transferee Company.

Sr. No.	Class of Meeting	Name of Applicant company	Date of Meeting	Time	Place of Meeting
1	Equity Shareholders	BLB Limited (Transferee Company)	Saturday 07.07.2018	11:00 A.M	Magpie Tourist Resort (a unit of Haryana Tourism Corporation Limited), Sector 16A Malthura Road, Faridabad - 121002

Copies of the said Scheme, the Explanatory Statement, under Sections 230(3), 232(1) and (2) and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge within one (1) day (on all working days) on a requisition being so made for the same by the equity shareholders of the Transferee Company at the Corporate office address of the Transferee Company i.e. H. No. 4760-61/23, 3rd Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110002 or at the office of its legal representative, Corporate Professionals, Advisors and Advocates, D-28, South Extension -I, New Delhi - 110049.

Persons entitled to attend and vote at the meetings may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the Corporate office of the Applicant Companies as mentioned above, not later than Forty eight (48) hours before the scheduled time of the commencement of the aforesaid meeting. Forms of proxy can be obtained from the Corporate office of the Transferee Company.

NCLT has appointed undersigned as Chairperson, and Mr. Aditya Jain, Advocate as alternate chairperson and Mr. Prince Chadha, Company Secretary as the scrutinizer of the said meeting of equity shareholders of the Transferee Company. The Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Further Notice is hereby given to the Equity Shareholders of the Transferee Company that:

- The Transferee Company has provided the facility of voting by postal ballot and e-voting so as to enable the equity shareholders, pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and as per directions of Hon'ble NCLT vide order dated 23rd May, 2018 on Company Application CA(CAA) No. 09/Chd/Hry/2018 to consider and approve the Scheme. The Transferee Company has also provided the facility of ballot or polling paper at the venue of the meeting. The Transferee Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating e-voting services;
- The cutoff date for determining the eligibility of the equity shareholders for voting through postal ballot or e-voting or voting at the venue of the meeting is 31st December, 2017 as per direction of Hon'ble NCLT. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled for voting. Persons who are not equity shareholders of the Transferee Company as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- Voting through postal ballot and e-voting by the equity shareholders will commence at 9:00 AM on Thursday, 7th June, 2018 and shall close at 5:00 P.M. on Friday, 6th July 2018;
- Duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer on or before 5:00 p.m. on Friday, 6th July 2018. Any postal ballot form received after 5:00 p.m. on Friday, 6th July 2018, shall not be considered and shall be treated as if the reply from the equity shareholders has not been received. Further e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on Friday, 6th July 2018 at 5:00 p.m.
- The Transferee Company shall be completing the dispatch of Notice along with the postal ballot form with instructions and a self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope amongst others, to the equity shareholders holding shares in either physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 31st December, 2017.
- Equity shareholders who have not received the postal ballot form can either download the same from the website of the Transferee Company, www.blblimited.com or obtain duplicate postal ballot from the Corporate office of the Transferee Company as stated above;
- During the voting period, the equity shareholders can opt for only one mode for voting i.e. either by postal ballot or e-voting. In case any equity shareholder cast the vote both via postal ballot and e-voting, then voting validly done through e-voting shall prevail. Equity shareholders who have cast their votes through postal ballot or e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again;
- Once the vote is cast by an equity shareholder, he or she will not be allowed to change it subsequently.
- The Notice including the postal ballot and e-voting instructions are available on the company's website at www.blblimited.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- In case of any query/grievance in relation to the voting by postal ballot may be addressed to Company Secretary of the Transferee Company at Corporate Office of the Transferee Company, or through email to Company Secretary can also be contacted at csblb@blblimited.com Phone- Tel: 011-49325621; in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. : 1800-222-990.

ट्रावन्कोर लिमिटेड
TRAVANCORE LIMITED
Enterprise)

HI (KERALA), INDIA
5172
http://www.fact.co.in

Trade Catalysts
1.06.2018

are invited from
ply of three types of
ID, Udyogamandal
ure.gov.in portal.
this tender will be
rtal and will not be

8 / 10.00 AM.
Sd/-
r Manager (Materials) ESS-1

UTTARAKHAND CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD.
Mangal Parao, Haldwani - 263139 (Nainital)

**E-Tender Notice no:- 03/UCDF//2018-19,
Date 05.06.2018**

E-tenders are invited by the undersigned in two bid system for Supply of milk poly film, Dahi and Milk Crates, Aluminium cup lids, Laminated Poly pouch, HDPE Cattle feed/Bhusa block bags, PPE pouch, milk cans, DPMCU consumable (cleaning, chemicals, printer paper role etc), SIT & C of D.G. Set, Ammonia compressor, IBT coils, condenser coils at member milk union from reputed manufactures/ authorized dealers up to 5 PM on 19.06.2018 which will be opened on 20.06.2018 at 11 AM. Tender documents may be downloaded/ uploaded from E-tender portal <http://www.uktenders.gov.in>

Managing Director

Commercial Feature

Inauguration of PFC Composter Machine



In yet another initiative taken during the ongoing Swachhta Pakhwada, under the aegis of Ministry of Power, Power Finance Corporation has installed a Composter Machine in Kalkaji Mandir today. The Bio-waste decomposing machine was inaugurated by Ajay Bhalla, Secretary (Power), Govt. of India in the presence of CMD, PFC, Rajeev Sharma, seniors officials of MCD, PFC and pundits of the Temple administration. The 500 kg Schnell Composter is a fully automated machine which transforms wet waste into organic compost in 24 hrs. The entire operation is fully automatic, noise free, odour free and does not generate any harmful gases or by products. The worship place is expected to become free from litters and other waste materials. Swachhta Pakhwada 2018 is being observed from 16th to 31st May 2018. This is the second installation of the machine by PFC. Earlier, this week; a similar bio waste machine was also installed at Urjanidhi premises.

sted entered

International trading and
of pesticides and agri
of Agreement. The MoA
Public Sector Enterprises for
export of various prod
the CMDs expressed



S P Mohanty, CMD HIL
tural benefit for both the
Chairman SCOPE informed
operation for the welfare of
organization would con-
hereby increasing synergy.

of DNP/M/RailTel

been appointed as Director
(ing & Marketing) of RailTel.
was working as Executive
RailTel. He is one of the
of RailTel. He had joined
of India Ltd in March 2002
fore taking absorption in
is career with the joining of
Service of Signal Engineers
Railways in 1992. He is an
Engineering Graduate from
Also completed his full-time
(PGDM) from prestigious
Surugram in 2001.

D's Northern Region-I



hha Bharat Abhiyaan", to pro-
wada" was organized from
D's Northern Region- I Head
n all the Sub-stations & estab-
Pakhwada the employees taken
oundings neat & clean and par-
Awareness Campaign was con-
atwaria Sarai to sensitize the
cleanliness and hygiene. Across

NFL has received 'Best Turnaround Strategy' award under Hindustan PSU Awards 2018



R. K Chandio, Director (Finance), NFL receiving 'Best Turnaround Strategy' award under Hindustan PSU Awards 2018 from Sh. Dharmendra Pradhan, Hon'ble Union Minister of Petroleum & Natural Gas and Skill Development & Entrepreneurship in New Delhi on 30th May, 2018.

SAIL declares Rs. 816 Crore Net Profit for Q4 FY18 – highest EBITDA in last 27 quarters

Steel Authority of India Ltd. (SAIL) announced its financial results for the fourth quarter of the Financial Year 2017-18 (Q4 FY18) and for FY18. After returning to profits in Q3 FY18, the Company in Q4 FY18 recorded a Net Profit of Rs.816 Crore reaffirming SAIL's positive performance. This comes after making a provision of Rs.582 Crore towards enhanced gratuity recently approved by Government of India. All the five integrated steel plants of the Company have also recorded individual profits in Q4 FY18. SAIL management's sustained efforts for process integration starting from production till reaching the customers, the intensive marketing efforts along with ramping up of production and stabilization of new mills are all yielding results and a novel end-to-end approach with its new product offerings is helping the Company achieve a stronger position. Company's Net Turnover in Q4 FY18 of Rs. 16,811 Crore saw an increase of 34% over FY18. The Q4 FY18 EBITDA at Rs.2,624 Crore, a humongous

CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED MARCH 24, 2018, APRIL 10, 2018 AND DRAFT LETTER OF OFFER DATED APRIL 04, 2018 FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED

(CIN: L65993WB1908PLC001838)
REGD. OFFICE: 5, KIRAN SHANKAR ROY ROAD, KOLKATA - 700001, WEST BENGAL, INDIA.
TEL. NO.: +91 33 2248-7093, +91 33 2343 0875, Email ID: tirrihannah.co@gmail.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 6,37,375 (SIX LAKHS THIRTY SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED ("TARGET COMPANY" OR "TCL") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY MR. GHANSHYAM DAS KANKANI (HEREINAFTER REFERRED TO AS "ACQUIRER") ALONG WITH MR. AVINASH KANKANI, MR. ABHAY BAHETI, MRS. MADHU LATA KANKANI, MRS. LAKSHMI BAHETI, MR. UMESH KANKANI, NORTH BENGAL DAIRY FARMING LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SPARTON LEASING AND FINANCE LIMITED), NUP PESTICIDES PVT. LTD. (FORMERLY KNOWN AS DWARIGA INVESTMENT PVT. LTD.), KAMMAN INNOVATIVE SOLUTIONS PVT. LTD. (FORMERLY KNOWN AS BAGDOGRA BIO GAS & ENERGY PVT. LTD. AND ERSTWHILE NAME KORAPUT INVESTMENTS PVT. LTD.) AND KAMRUP MANURES & FERTILISERS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS WESTERN INDIA CEMENTS LTD.) (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PACS") (THE "OFFER"/"OPEN OFFER")

This Corrigendum to Public Announcement ("Corrigendum") is being issued by Gretex Corporate Services Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of Acquirer and PACs in respect of the Open Offer to the equity shareholders of Tirrihannah Company Limited (hereinafter referred to as "Target Company" or "TCL") pursuant to Regulation 11(2) and other applicable provisions as required under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares & Takeovers) Regulations, 1997 pursuant to changes/amendments advised by SEBI vide their letter no. SEBIHO/CFD/DCR-20/W/P/2018/15883/1 dated June 01, 2018 and should be read in conjunction of and in conjunction with, the PA and the DLoO. The shareholders of the Target Company are requested to note the following with respect to the Public Announcement.

1. The Original and Revised Schedule of some of the major activities pertaining to the Offer is as under:

Activities	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Date of Public Announcement	24.03.2018	Saturday	24.03.2018	Saturday
Specified date for the purpose of determining the names of shareholders to whom the Letter of Offer will be sent	17.04.2018	Tuesday	17.04.2018	Tuesday
Last date of Competitive Bid, if any	25.04.2018	Wednesday	25.04.2018	Wednesday
Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	04.05.2018	Friday	08.06.2018	Friday
Pre-Offer Advertisement	-	-	06.06.2018	Friday
Date of Opening of the Offer	12.05.2018	Saturday	11.06.2018	Monday
Last date for revising the Offer Price / No. of Shares	22.05.2018	Tuesday	21.06.2018	Thursday
Last Date for withdrawal of acceptance by shareholders who have accepted the Offer	28.05.2018	Monday	27.06.2018	Wednesday
Date of Closing of the Offer	31.05.2018	Thursday	30.06.2018	Saturday
Date of communicating rejection/ acceptance and payment of consideration for applications accepted	06.06.2018	Tuesday	06.07.2018	Thursday

2. Mrs. Lakshmi Baheti has been removed from the PACs as in para 2.1.1 of the draft letter of offer it is categorically mentioned that "Since one of the PACs, namely Mrs. Lakshmi Baheti had died on June 17, 2011, the proceedings against her stand closed as mentioned in the order" although she is one of the parties to the order issued by the SEBI on 08.02.2018.

3. As on the date of corrigendum, there has been no relation between Ghanshyam Das Kankani (Acquirer) and Mr. Abhay Baheti (PACs), Mrs Kamman Innovative Solutions Pvt. Ltd. (PACs) and M/s Kamrup Manures & Fertilisers Ltd. (PACs).

4. The revised shareholding pattern of the company (pre and post acquisition) and Promoters and PAC's Capital Build up should be read as follows:

Pre and Post-Offer Shareholding Pattern of TCL (based on issued, Subscribed & Paid-up Equity and Voting Share Capital) is as under:

Shareholders' Category	Shareholding & voting rights prior to the agreement/acquisition and offer (November 06, 2007)	Shares/Voting rights agreed to be acquired which triggered off the Regulations (November 07, 2007)		Shareholding/Voting rights as on the date of PA (March 24, 2018)		Shares/Voting rights to be acquired in open Offer (assuming full acceptance)		Share holding/Voting rights after Offer (B+C)	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (C) + (D)	(F)	(G)	
Parties to the Agreement									
1. (a) Promoter									
Vivak Bajoria	1,50,940	10.81	-	-	-	-	-	-	-
Smrita Bajoria	49,840	3.57	-	-	-	-	-	-	
Raghav Bajoria	33,900	2.43	-	-	-	-	-	-	
Shivangi Bajoria	62,800	4.50	-	-	-	-	-	-	
Vivak Bajoria (HUF)	71,260	5.11	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (a)	3,68,740	26.42	-	-	-	-	-	-	
(b) Promoter Group									
North Bengal Dairy Farming Limited (Formerly known as Sparton Leasing and Finance Limited)	2,17,836	15.61	-	-	-	-	-	-	
NJP Pesticides Pvt. Ltd. (Formerly known as Dwarika Investment Pvt. Ltd.)	1,38,000	9.89	-	-	-	-	-	-	
Kamman Innovative Solutions Private Limited (Formerly known as Bagdogra Bio Gas & Energy Pvt. Ltd. and Erstwhile name Koraput Investments Pvt. Ltd.)	1,37,880	9.88	-	-	-	-	-	-	
Kamrup Manures & Fertilisers Limited (Formerly known as Western India Cements Ltd.)	1,26,808	9.07	-	-	-	-	-	-	
Kankani Construction Pvt. Ltd.	-	-	-	12,93,220	40.59	-	12,93,220	40.59	
Arun Distributors Pvt. Ltd.	-	-	-	2,90,000	9.10	-	2,90,000	9.10	
Shivani Properties Pvt. Ltd.	-	-	-	72,800	2.26	-	72,800	2.26	
TOTAL (b)	6,20,324	44.44	-	16,56,020	51.96	-	16,56,020	51.96	
Parties other than parties to agreement									
Global Overseas Ltd.	1,25,600	9.00	1,25,600	9.00	-	-	-	-	
TOTAL (1) (a + b)	11,14,664	79.86	1,25,600	9.00	16,56,020	51.96	16,56,020	51.96	
2. Acquirers									
a. Main Acquirer									
Ghanshyam Das Kankani	-	-	1,47,390	10.56	3,07,030	9.63	-	3,07,030	9.63
b. PACs									
Avinash Kankani	-	-	2,750	0.20	1,28,350	4.03	-	1,28,350	4.03
Madhu Lata Kankani	-	-	71,260	5.11	71,260	2.24	-	71,260	2.24
Umesh Kankani	-	-	29,500	2.11	1,23,460	3.87	-	1,23,460	3.87
Abhay Baheti	-	-	68,000	4.87	-	-	-	-	
Lakshmi Baheti	-	-	49,840	3.57	-	-	-	-	
North Bengal Dairy Farming Limited (Formerly known as Sparton Leasing and Finance Limited)	-	-	2,17,836	15.61	-	-	-	-	
NJP Pesticides Pvt. Ltd. (Formerly known as Dwarika Investment Pvt. Ltd.)	-	-	1,38,000	9.89	-	-	-	-	
Kamman Innovative Solutions Private Limited (Formerly known as Bagdogra Bio Gas & Energy Pvt. Ltd. and Erstwhile name Koraput Investments Pvt. Ltd.)	-	-	1,37,880	9.88	-	-	-	-	
Kamrup Manures & Fertilisers Limited (Formerly known as Western India Cements Ltd.)	-	-	-	-	1,26,808	9.07	-	1,26,808	9.07
TOTAL (2) (a + b)	-	-	9,89,064	70.86	6,30,100	19.77	-	6,30,100	19.77
3. Open Offer Shares	-	-	-	-	-	-	6,37,375	20.00	6,37,375
TOTAL (4) (1 + 2 + 3)	11,14,664	79.86	11,14,664	79.86	22,86,120	71.74	6,37,375	20.00	29,23,495
5. Public Share Holding									
(i) Institutions									
a) FIIs/MFIs/Banks/Ins Co.	52,800	3.78	52,800	3.78	52,800	1.66	-	52,800	1.66
b) Insurance Company	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (i) (a + b + c)	52,800	3.78	52,800	3.78	52,800	1.66	-	52,800	1.66
(ii) Non institutions									
a) Bodies Corporate:	33,750	2.42	33,750	2.42	28,750	0.90	-	28,750	0.90
b) Individuals:	1,82,201	13.77	1,82,201	13.77	8,16,805	25.63	-	8,16,805	25.63
c) Others (NRI with Repatriation)	2,400	0.17	2,400	0.17	2,400	0.08	-	2,400	0.08
Total (ii) (a + b + c)	2,28,351	16.36	2,28,351	16.36	8,47,955	26.61	-	8,47,955	26.61
Total (5) (i + ii)	2,81,151	20.14	2,81,151	20.14	9,00,755	28.26	-	9,00,755	28.26
GRANDTOTAL (4+5)	13,95,815	100.00	13,95,815	100.00	31,86,875	100.00	-	31,86,875	100.00

Format for change in holding of Promoter/ Promoter Group of the Target Company

Name of the Promoter/ Promoter group entity	Opening Balance as on November 07, 2017	Transaction Details				Closing Balance as on March 24, 2018				Increase/decrease in holding of promoter (+/%) (in terms of %)	Applicable regulation of SEBI Regulations 1997	Compliance status with (SEBI) Regulations and other applicable Regulations	
		No. of Shares	%	No. of Shares	%	No. of Shares	%	No. of Shares	%				
Ghanshyam Das Kankani	1395815	-	-	07.11.07	147390	10.56%	-	-	147390	10.56%	10.56%	10 & 12	Nil
Avinash Kankani	3186875	-	-	147390	10.56%	3186875	1.31%	-	189190	5.94%	4.62%	10	Nil
Madhu Lata Kankani	3186875	-	-	189190	5.94%	3186875	3.70%	-	307930	9.63%	3.87%	10	Nil
Umesh Kankani	1395815	-	-	07.11.07	2750	0.20%	-	-	2750	0.20%	0.20%	10 & 12	Nil
Abhay Baheti	3186875	-	-	07.11.07	128350	4.03%	-	-	128350	4.03%	3.83%	-	-
Lakshmi Baheti	3186875	-	-	07.11.07	71260	2.24%	-	-	71260	2.24%	2.24%	10 & 12	Nil
North Bengal Dairy Farming Limited	1395815	-	-	07.11.07	29500	2.11%	-	-	29500	2.11%	2.11%	10 & 12	Nil
NJP Pesticides Pvt. Ltd.	3186875	-	-	15.09.09	7160	0.22%	-	-	7160	0.22%	0.98%	-	-
Kamman Innovative Solutions Pvt. Ltd.	3186875	-	-	31.03.10	66800	2.72%	-	-	66800	2.72%	2.72%	10	Nil
Koraput Investments Pvt. Ltd.	3186875	-	-	31.03.10	290000	9.10%	-	-	290000	9.10%	9.10%	10	Nil
Shivani Properties Pvt. Ltd.	3186875	-	-	31.03.10	72800	2.28%	-	-	72800	2.28%	2.28%	10	Nil
Kankani Construction Pvt. Ltd.	3186875	-	-	31.03.10	1293220	40.58%	-	-	1293220	40.58%	40.58%	10	Nil

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी याचिका सीपी (सीएए) संख्या 41(पीबी)/2018 के साथ जुड़े कंपनी आवेदन सीए (सीएए) संख्या 149(पीबी)/2017 का नवीनीकरण, 2013 के अनुच्छेदों 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समग्र), व्यवस्था और समामेलन नियम, 2016 के मामले में और व्यवस्था की योजना के मामले में।

डीएलएफ साउथ पाइंट लिमिटेड, (सीआईएन: U70109DL2013PLC259262), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्मित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय: डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है

– याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 1 और डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, (सीआईएन: U70101DL2002PLC113636), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्मित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय: 9वां तल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है

– याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरणकर्ता कंपनी/डीमर्ज कंपनी डीएलएफ इंफो सिटी हैदराबाद लिमिटेड, (सीआईएन: U70200DL2017PLC324756), कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्मित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय: डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है

– याचिकाकर्ता सं. 3/परिणामी कंपनी याचिका की सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेदों 230-232 के तहत डीएलएफ साउथ पाइंट लिमिटेड (अंतरणकर्ता कंपनी सं. 1) का डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड (अंतरणकर्ता कंपनी/डीमर्ज कंपनी) के एकीकरण को प्रदान करने के साथ साथ डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड (अंतरणकर्ता कंपनी/डीमर्ज कंपनी) का हैदराबाद एक्सप्लोड अंडरटेकिंग डीएलएफ इंफो सिटी हैदराबाद लिमिटेड (परिणामी कंपनी) में मिलावट की व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने हेतु याचिका, याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दिनांक 18.04.2018 को प्रस्तुत की गई और जिसकी सुनवाई दिनांक 23.04.2018 को हुई थी और जब उक्त याचिका की सुनवाई माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुख्य पीठ नई दिल्ली में दिनांक 06.07.2018 को प्रा. 10:30 बजे होनी निर्धारित हुई है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का विरोध अथवा समर्थन करना चाहता है तो वह अपने आग्रह की सूचना स्वयं के या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर सहित, अपने नाम और पते के साथ याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को भेजे जो कि याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के पास सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व पहुंच जानी चाहिये। अगर वह व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है तो वह विरोध के कारण अथवा शपथ पत्र की प्रति अपनी सूचना के साथ संलग्न करे। याचिका की प्रति वाहने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क जमा करके अयोध्यापुरी द्वारा याचिका की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

नवीन दहिशा याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता ई-2 कलाशा कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

दिनांक: 29.05.2018

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष कंपनी आवेदन सं. CA(CAA) 09/Chd/Hry/2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 व 232 के मामले में:

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

– और – और

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर दिनांक: 04.06.18 क्रमांक: 574-617 ई-निविदा आमंत्रण सूचना (UBN Number DAM1819SLOB00172)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी द्वारा जारी किए गये बंधुओं की निम्नलिखित सूचना हेतु ब्याज प्राप्त करने के हकदार बंधुधारकों के लिए निम्नलिखित रिकार्ड तारीख (ख) का निर्धारण किया गया है-

क्र. सं.	बंधु विवरण	ब्याज भुगतान की तारीख	रिकार्ड तारीख
1.	8.25% (कर योग्य) सिक्कोई रिडिमेल नॉन कन्वर्टिबल बॉण्ड्स - बी सी स्ट्रीट आइएनए 114E07919	27.07.2018	02.07.2018
2.	8.30% (कर योग्य) सिक्कोई रिडिमेल नॉन कन्वर्टिबल बॉण्ड्स - बी सी स्ट्रीट आइएनए 114E07950		